



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGHA 4, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

सं. 49/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/0009/एएम 05/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 3.12 के पहले पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

पंजीकरण और सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) प्राप्त करने के इच्छुक निर्यातक को आवेदन में अपने मुख्य व्यापार को बताना होगा जिसे व्यापार के बारे में निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) को प्रस्तुत करना होगा। तथापि, स्तर धारक के पास भारतीय निर्यातक संघटन महासंघ (फिओ) से आरसीएमसी प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

2. मौजूदा परिशिष्ट-27 को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-1 में दिए गए संशोधित परिशिष्ट-27 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. परिशिष्ट 35क में क्रम सं. 37 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित नई प्रविष्टियों को जोड़ा गया है:

38. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के परिशिष्ट-24 में दिए गए क्षेत्राधिकार के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालय।

39. इस परिशिष्ट में दी गयी निर्यात संवर्धन परिषदों के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

**अनुलग्नक-1****परिशिष्ट - 27****निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों की सूची**

क्रम सं.	निर्यात संवर्धन परिषद् का नाम	परिषद् के पंजीकृत कार्यालय का पता	परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय का पता
1	2	3	4
1.	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा)	3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016  टेली: 011 6513204 011 6514572 011 6534186 फैक्स: 011 6534870	(1) 12वाँ तल, यूनिट सं. 1 एम वी आई आर डी सी, कूफे पेरड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुम्बई 400005 टेली: 022 2183106 022 2189060 फैक्स: 022 2189681  (2) 12/1/1 पैलेस क्रॉस रोड बैंगलोर 560020 टेली: 080 3343425 फैक्स: 080 3364560  (3) मयूख भवन, विधान नगर कलकत्ता-700091 टेली: 033 374244
2.	अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद	15 एन बी सी सी टॉवर भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 110066 टेली: 011 6183351 011 6169394 011 6169356 011 6169357 फैक्स: 011 6188584	(1) चौथा तल, सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरु प्लेस नई दिल्ली 110019 टेली: 011 6416709 011 6472533 फैक्स: 011 6487517 (2) 48 कम्यूनिटी सेंटर नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया फेज 1 नई दिल्ली - 110028 टेली: 011 5790185 011 5790187 011 5798326 011 5795309 फैक्स: 011 5790701 011 5795309  (3) 6 कम्यूनिटी सेंटर, जमरुदपुर नई दिल्ली 110048

टेली: 011 6460491  
 011 6460492  
 011 6218387  
 011 6216963  
 फ़ैक्स: 011-6480489

(4) सी एफ ओ 3 और 4 टोंक रोड,  
 नेहरू प्लेस,  
 जयपुर-302015  
 राजस्थान  
 टेली: 518275  
 518276  
 फ़ैक्स: 518654

(5) जी 138 शास्त्री नगर  
 जोधपुर 342003  
 टेली: 0291 37652  
 फ़ैक्स: 0291-37652  
 0291-238015  
 (6) फ्लैट नं. 112  
 भूतल, प्रताप कॉलोनी  
 मॉडल ग्राम  
 लुधियाना पंजाब  
 टेली: 0161 402697  
 0161 207234  
 फ़ैक्स: 0161 402697

(7) 12वां तल  
 बजाज भवन  
 नरीमन प्वाइंट  
 मुम्बई 400021  
 टेली: 022 2845479  
 022 2045924  
 022 2040174  
 022 2853420  
 022 2853419  
 फ़ैक्स: 022 2043178

(8) कमरा नं. 73-76,  
 कार्गो काम्प्लैक्स बिल्डिंग  
 (भूतल) सहार ग्राम  
 विले-पार्ले (ईस्ट)  
 मुम्बई 400099  
 टेली: 022 8321327  
 फ़ैक्स: 022 8213411

(9) कारुमुतू सैन्टर, तीसरा तल  
 498 अन्ना सलाई

चेन्नई-600035  
 टेली: 044 4343588  
 044 4346848  
 फैक्स: 044 4346416

(10) नं.1, तीसरी स्ट्रीट, इंदिरा नगर,  
 ऑफ अविनाशी रोड  
 तिरुपुर 641603  
 तमिलनाडु  
 टेली: 0421 743049  
 0421 748763  
 0421 749631  
 फैक्स: 0421 749630

(11) प्रथम तल, 5-10-19,  
 स्टिज होटल रोड,  
 साईफाबाद,  
 (निकट हज भवन/पुलिस कन्ट्रोल  
 रुम) हैदराबाद  
 टेली: 210372  
 फैक्स: 210378

(12) 42/1924, विवाइल बिल्डिंग,  
 के.के. पदमानाभन रोड,  
 कोची - 682018  
 टेली: 0484 391710  
 फैक्स: 0484 392907

(13) 2/2-बी एचओ सीएचआई  
 एमआईएनएच, सारणी  
 कोलकाता- 700071  
 टेली: 033 2423911  
 फैक्स: 033 2422766

3. बेसिक केमिकल्स,  
 फार्मास्यूटिकल्स और  
 कोस्मेटिक्स एक्सपोर्ट  
 प्रमोशन काउन्सिल स्ट्रीट

झाँसी कैसल, चौथा तल  
 7 कोपरेज रोड  
 मुम्बई 400039  
 टेली : 022 2021288  
 022 2021330,  
 022 2825861,  
 फैक्स: 022 2026684

(1) कांकरिया एस्टेट  
 9 बाँ तल, 6 लिटल रुसैल  
 कोलकाता -700071  
 टेली: 033 2475562

(2) नं0 23/1 और 2  
 पांचवां मेन रोड  
 तीसरा क्रॉस, गांधीनगर  
 बंगलौर 560009  
 टेली: नं0 080 2269037  
 080 2260446

4. दि कैशयू एक्सपोर्ट  
प्रमोशन काउन्सिल  
ऑफ इण्डिया
- पी बी नं० 1709  
चित्तूर रोड  
एर्नाकुलम साउथ  
कोचीन 682016  
टेली: 0484 361459  
0484 369080  
0484 353357  
फैक्स: 0484 370973
5. कारपेट एक्सपोर्ट  
प्रमोशन काउन्सिल
- 110 - ए/1 कृष्णा नगर  
गली नं० 5  
सफदरजंग एन्क्लेव  
नई दिल्ली 110029  
टेली: 011 6102742,  
011 6101024  
फैक्स: 91 11 616 5299
- पहला तल, कालीन भवन  
मर्यादापति  
भदोही 221401  
(यू पी)  
टेली: 05414 25975
6. सीएपीईएक्स  
आईएल
- "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर"  
दूसरा तल, 14/1-बी एजरा स्ट्रीट  
कोलकाता 700001
- टेली: 022 22215652  
022 22357079, 22358217/19  
022 22342416/65  
फैक्स: 91-33-2215657  
ई.मेल: [www.capexil.com](http://www.capexil.com) और  
[www.capexiltrade.com](http://www.capexiltrade.com)
- पश्चिमी क्षेत्र  
(1) कामर्स सेंटर  
ब्लॉक नं. डी-17  
टारडियो रोड  
मुम्बई 400034  
टेली: 022 4943410  
022 4960084  
फैक्स: 91-22-4937665
- (2) दक्षिणी क्षेत्र  
"रशीद मैन्शन"  
408 अन्ना सलाई  
चेन्नई 600006  
टेली: 044 829 2310  
044 829 4713  
फैक्स: 91-44-8295386
- (3) उत्तरी क्षेत्र  
"वन्दना बिल्डिंग", 4 सी  
चौथा तल, 11, टालस्टाय मार्ग,  
नई दिल्ली 110001  
टेली: 011 335 6703  
011 3711479  
011 3752282  
फैक्स: 91-11-3314486  
ई मेल: [capexiln@bol.net.in](mailto:capexiln@bol.net.in)

- (4) पूर्वी क्षेत्र  
 "तम्बाकू हाऊस"  
 1 एवं 2 ओल्ड कोर्ट हाऊस, कार्नर  
 कोलकाता 700001  
 टेली: 033 220 7620  
 फैक्स: 91-33 2206945
7. कॉफी बोर्ड      1. डा. अम्बेडकर बीघी  
 बंगलौर 560001  
 फैक्स: 080 226 5557
8. कायर बोर्ड      कायर हाऊस  
 एम.जी.रोड, अर्नाकुलम  
 साऊथ, कोची 682016  
 टेली: 0484 351 788  
 0484 351 807  
 0484 351 954  
 0484 354 397  
 फैक्स: 0484 370 034
- 8 अनैक्सी बिल्डिंग  
 कनिंघम रोड  
 बंगलौर 560052  
 टेली: 080 268 538
9. दि कॉटन टैक्स्टाइल्स      इंजीनियरिंग सैन्टर  
 एक्सपोर्ट प्रमोशन      पाँचवा तल  
 काउन्सिल      9 मैथ्यू रोड  
 मुम्बई 400004  
 टेली: 022 363 2910-13  
 फैक्स: 22 3632914
- (1) केसिल कोर्ट  
 26 महाकवि भूषण  
 मार्ग (रीगल सिनेमा के पास)  
 मुम्बई 400039  
 टेली: 022 202 1477  
 022 202 1522,  
 022 202 7221  
 फैक्स: 022 202 2510
- (2) सं. एफ. द्वितीय तल  
 "माऊण्ट चैम्बर्स"  
 758 माऊण्ट रोड  
 चेन्नई 600002  
 टेली: 044 852 5486  
 फैक्स: 044 852 1205
- (3) 101, अशोक इस्टेट  
 24, बाराखम्बा मार्ग  
 नई दिल्ली-110001  
 टेली: 011-331 6168  
 फैक्स: 011 371 9104
- (4) जलदर्शन हाऊसिंग सोसाइटी  
 नटराज सिनेमा के सामने  
 आश्रम रोड,  
 अहमदाबाद 380009

टेली: 079 409 323

(5) 14/1 बी इजरा इस्टेट  
विश्व व्यापार केन्द्र  
कोलकाता 700001  
टेली: 033 254 541

(6) "जयंती", द्वितीय तल  
48-क एस एस मूर्ति स्ट्रीट  
टूटीकोरिन 628002 (तमिलनाडु)  
टेली: 245 87

(7) एक्सपोर्ट डाकुमेंटेशन सेंटर  
बिल्डिंग वेलिंगटन आईलैंड  
कोचिन नार्थ इण्ड 682003  
टेली: 0484 666 521

(8) द्वितीय तल, 593 क्रॉस  
कट रोड, गांधीपुरम  
कोयम्बटूर 641012  
टेली: 235 587

(9) एयर कार्गो कम्पलेक्स  
संगनेर एअरपोर्ट  
जयपुर 302 011  
टेली: 0141 550 020

(10) 10/293 बँगलो रोड  
काँग्रेस भवन  
इचालकरन्जी 416115  
जिला- कोल्हापुर  
टेली: 22193

(11) "मयूर कम्पलेक्स"  
20, पालानिपा स्ट्रीट  
इरोड 638009  
टेली: द्वारा 77 901

(12) एयर कार्गो कम्पलेक्स  
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय  
विमान पत्तन प्राधिकरण  
मुम्बई विमान पत्तन के निकट  
सहार ग्राम  
मुम्बई- 400057  
टेली: 022 832 4094

10. इलैक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर  
सॉफ्टवेयर निर्यात  
संवर्धन परिषद्  
(ई एस सी)
- पी एच डी हाऊस, तृतीय तल  
रामकृष्ण डालमिया विंग  
एशियन खेल गांव के सामने  
नई दिल्ली- 110016  
टेली: 011 696 5103  
011 696 4463  
फैक्स: 011 651 0632  
011 685 3412  
ई.मेल: [esc@giasd101.vsnl.net.in](mailto:esc@giasd101.vsnl.net.in)
11. इंजिनियरिंग निर्यात  
संवर्धन परिषद्
- विश्व व्यापार केन्द्र  
प्रथम तल  
14/1 बी इजरा स्ट्रीट  
कोलकाता- 700001  
टेली: 033 250 514  
033 254 631  
फैक्स: 0091 033 254659
- (1) केन्द्र 1, 12वां तल  
विश्व व्यापार केन्द्र  
कूपे परेड  
मुम्बई- 400005  
टेली: 022 218 6655  
022 218 6656  
022 218 6660  
फैक्स: 0091-22-218 0119
- (2) सूर्य किरण (चतुर्थ तल)  
19, कस्तूरबा गांधी मार्ग  
नई दिल्ली- 110001  
टेली: 011 331 4171  
011 331 4174  
फैक्स: 0091 11 331 7795
- (3) मालाविका केन्द्र  
तृतीय तल,  
144/145 कोडम्बकम  
हाई रोड  
चेन्नई- 600034  
टेली: 044 827 7501  
044 827 6007  
044 826 4972  
फैक्स: 0091 44 827 0491
12. निर्यातमुखी इकाइयों तथा  
एसईजेड इकाइयों के लिए  
निर्यात संवर्धन परिषद्
- पंजीकृत कार्यालय  
705 भीकाजी कामा भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली-110066  
टेली: 011-26165508/  
7042/6185  
फैक्स: 011-26165538  
ई.मेल: [epces@vsnl.com](mailto:epces@vsnl.com)

13. भारतीय निर्यात संगठन  
परिसंघ (फीओ)

पी एच डी हाऊस  
तृतीय तल एशियन खेल  
गांव के सामने  
नई दिल्ली- 110016  
  
टेली: 011 685 1310  
011 685 1312  
011 685 1314  
011 685 1315  
फैक्स: 011 686 3087  
696 7859  
ई मेल: [fiodel@fiodel.cmc.net.in](mailto:fiodel@fiodel.cmc.net.in)  
[feo@giasd101.vsnl.net.in](mailto:feo@giasd101.vsnl.net.in)

(1) विश्व व्यापार केन्द्र  
सं.-1  
11वां तल  
क्यूफे परेड  
मुम्बई- 400005  
टेली: 022 218 5093  
022 218 3354  
फैक्स: 91 22 218 3875  
ई मेल: [fiowr@giasbm01.vsnl.net.in](mailto:fiowr@giasbm01.vsnl.net.in)

(2) स्पेन्सर प्लाजा  
यूनिट सं.-706,  
7वां तल  
769 अन्ना सलाई  
चेन्नई- 600002  
टेली: 044 852 2427  
044 852 1861  
फैक्स: 91 44 852 4767  
ई मेल: [fiocr@giasmd01.vsnl.net.in](mailto:fiocr@giasmd01.vsnl.net.in)

(3) एक्सप्रेस टॉवर  
6 वीं तल  
42 क शेक्सपीयर सरानी  
(राऊडोन स्ट्रीट और शेक्सपीयर  
सरानी का जंक्शन)  
कोलकाता- 700071  
टेली: 033 2406 398,  
033 2405 076  
फैक्स: 91 033 247 0364  
ई मेल: [fiocr@gems.vsnl.net.in](mailto:fiocr@gems.vsnl.net.in)

14. रत्न और आभूषण निर्यात  
संवर्धन परिषद्

डायमण्ड प्लाजा  
पांचवां तल  
391-क डॉ0 डी.बी. मार्ग  
मुम्बई- 400004  
टेली: 022 385 6916  
022 382 1806  
022 382 1801  
फैक्स: 022 386 8752  
ई मेल: [giepc@vsnl.com](mailto:giepc@vsnl.com)

(1) एफ-3 झण्डेवाला  
फ्लेटिड फैक्ट्रीज कम्पलेक्स  
रानी झांसी मार्ग  
नई दिल्ली- 110055  
टेली: 011 3515395  
011 3614197  
फैक्स: 011 3675274

(2) राजस्थान चैम्बर भवन,  
एम आई रोड,  
जयपुर- 302003

टेली: 0141 565731  
0141 568029  
फैक्स : 0141 567921  
ई मेल: giepcjip@jpl.DOT.net.in

(3) 626-628, बेल्जियम टॉवर्स  
छठा तल, रिंग रोड,  
सूरत 395 001  
टेली: 0261 435 008

(4) अंकुर प्लाजा, तीसरा तल,  
52, जी.एन. चेट्टी रोड,  
टी. नगर,  
चेन्नई-600017  
टेली: 8276188  
0448226686  
ई.मेल: giepcsr@vsnl.com

(5) इन्टरनेशनल ट्रेड फैसीलीटेशन  
सेन्टर (वाणिज्य भवन),  
60वाँ तल, लेफ्ट विंग 1/1  
बूड स्ट्रीट कोलकाता-700016  
टेली: 0332823630  
0332823629  
ई.मेल: giepcer@vsnl.com

15. हस्तशिल्प निर्यात  
संवर्धन परिषद्  
प्लॉट नं. 1 पाकेट 6 व  
7 सेक्टर-सी, एलएससी  
बसंत कुन्ज  
नई दिल्ली- 110070  
टेली: 011 613 525658  
फैक्स: 91-11-613 551819  
ई. मेल: epch@vsnl.com

16. हथकरघा निर्यात  
संवर्धन परिषद्  
34 केथेड्रल गार्डन रोड  
नुन्गाम्बकम  
चेन्नई- 600034  
टेली: 044 827 8879  
044 827 6043  
फैक्स: 0091 44 827 1761  
ई.मेल:  
@hepcatp@vsnl.com

(1) 1004, 10वाँ तल,  
पदमा टावर्स-1  
5, राजेन्द्र प्लेस,  
नई दिल्ली- 110008  
टेली: 011 5826965  
फैक्स: 011 5826966  
ई.मेल:  
@hepcrond@vsnl.com

(2) 15-ए, मामा परमानन्द मार्ग  
आपेरा हाउस

- मुम्बई-400004  
टेलीफैक्स: 91 22 3672921  
ई.मेल:  
hepcromu@mantraonline.com
17. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् 62 मित्तल चेम्बर  
छठा तल  
नारीमन पॉइंट  
मुम्बई- 400021  
टेली: 022 202 7662  
022 202 5866  
फैक्स: 022 287 4606  
ई. मेल: isepc@bom2.isnl.nat.in
- 16 राष्ट्रीय पार्क  
लाजपत नगर IV  
नई दिल्ली- 110024  
टेली: 011 621 6272  
फैक्स: 011 643 0685
18. जूट विनिर्माता विकास परिषद् 3ए पार्क प्लाजा 71  
पार्क स्ट्रीट,  
कोलकाता-700016  
टेली: 2172107,  
2172540, 2263438  
फैक्स: 2172456  
ई [aEaaE&jmdc@giasci01.vsnl.net.in](mailto:aEaaE&jmdc@giasci01.vsnl.net.in)
19. चमड़ा निर्यात परिषद् "लैदर सैन्टर"  
53, राजा मुथिया रोड  
चेन्नई - 600003  
टेली: 044 589 098  
044 582 041  
044 580 834  
फैक्स: 044 588 713  
044 587 083  
ई. मेल:  
[cle@giasmd01.vsnl.net.in](mailto:cle@giasmd01.vsnl.net.in)
- (1) 15/238 सिविल लाइन्स  
पी ओ बाक्स नं. 198  
कानपुर- 208001  
टेली: 0512 311 247  
0512 318 053  
फैक्स: 0512 311 247
- (2) 11/4 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 1,  
कूफे परेड  
मुम्बई- 400005  
टेली: 022 218 4060  
फैक्स: 022 215 1207
- (3) फ्लैट सं. 6जी एवं 6एच  
(गोपाला टावर्स)  
राजेन्द्र प्लेस  
नई दिल्ली- 110008  
टेली: 011 571 8516  
011 571 1437  
फैक्स: 011 575 2760

(4) "मोती जग हाऊस"  
भूतल, 1, आकलैण्ड प्लेस  
कोलकाता- 700017  
टेली: 033 240 7270  
फैक्स: 033 247 4543

(5) आगरा एक्सटेंशन सेन्टर  
ब्लॉक सं. 26/2/4, शॉप सं. 112,  
संजय प्लेस, आगरा-282002  
टेली: 352 619

20. समुद्री उत्पाद निर्यात  
विकास प्राधिकरण

पी बी सं. 1663  
मपेडा हाऊस  
पेनमपिल्ले एवेन्यू  
कोची- 682036

टेली: 0484 311 979

0484 311 901

फैक्स: 0091 0484 313 361

(1) 600 तल  
रीजेन्ट चैम्बर्स  
जमनालाल बजाज मार्ग  
नरीमन पॉइंट  
बम्बई-400021  
टेली: 022 283 1399  
022 283 4354  
फैक्स: 022 283 4354

(2) 4-बी मारुती बिल्डिंग  
12 लाउडोन स्ट्रीट  
कोलकाता- 700017  
टेली: 033 247 5908  
033 247 1181

(3) दौफीक कम्पलैक्स  
रविपुरम,  
एम जी रोड,  
कोचीन- 682016  
टेली: 0484 350 518  
0484 350 562

(4) सं. 10 सम्बन्धम स्ट्रीट  
जी एन सेट्टी रोड  
टी नगर  
चेन्नई- 600017  
टेली: 044 827 7350  
044 827 7490  
फैक्स: 04482 774 90

(5) सुखशांती बिल्डिंग  
प्रथम तल, भिदिया,  
वेरावल-362269  
गुजरात

टेली: 02876 214 29

फैक्स: 02876 214 29

(6) डोर सं. 13-1-15

वार्ड सं. 13, प्रथम तल

केले कोर्ट

पंजे मंगेश राव रोड

हेमपनकुट्टा

मंगलोर- 575 001

टेली: 0824 440 360

फैक्स: 0824 440 360

(7) मीरा फ्लोर्स, प्रथम तल

गोमान्तक प्रेस के पास

सेन्ट इनेज

पणजी- 403001

गोवा

टेली: 0832 224 283

फैक्स: 0832 224 283

(8) श्रीहरी, परमेश्वर नागर

किलोन- 691001

टेली: 0474 73741

फैक्स: 0474 73741

(9) 487-9 रामा टाकीज रोड

प्रथम तल, श्रीनगर

विशाखापत्तनम- 530016

फैक्स: 0891 552 077

(10) थिरुवारुल, 24, चिदाम्बरा नगर,

सैकेण्ड स्ट्रीट

टूटीकोरिन- 628008

टेली: 0466 22602

फैक्स: 0466 22602

(11) पराद्वीप

प्लॉट सं. 695/696

जी ब्लॉक

बी जे बी नगर

भुवनेश्वर 751 014

टेली: 0674 430 724

(12) ट्रेड प्रमोशन ऑफिस

101 निर्मल टावर

बाराखम्बा रोड  
नई दिल्ली-110001  
टेली: 11 3719126  
फैक्स: 11 3310582

21. भारतीय प्रोजेक्ट निर्यात  
संवर्धन परिषद  
एच-118 हिमालय हाउस,  
(11 वां तल), 23- कस्तूरबा  
गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
ई मेल: info@projectexports.com  
वेबसाइट:-  
http://www.projectexports.com
22. प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट  
प्रमोशन काउन्सिल  
क्रिस्टल टॉवर क्रिस्टल  
कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी  
लिमिटेड, गुन्डवाली रोड सं.3  
एम.बी. रोड के सामने अन्धेरी  
(पूर्व) मुम्बई-400005  
टेली:022-26833951/52  
ई मेल:plexconcil@vsnl.com  
306, डोहिल चैम्बर्स, तीसरी तल,  
46, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19  
टेली:26445610  
फैक्स:26236070
23. फार्मास्यूटिकल निर्यात  
संवर्धन परिषद  
सी-25 इंडस्ट्रियल इस्टेट,  
सनतनगर, हैदराबाद-500018  
टेली:040-23703910/06718  
फैक्स:040-23704804  
पूनम चैम्बर्स, ए विंग,  
डा. ए.बी. रोड वर्ली,  
मुम्बई-400018  
टेली:022-24974308/44624,  
फैक्स:022-24950723
24. पावर लूम विकास एवं  
निर्यात संवर्धन परिषद्  
(पडैक्सिल)  
16, पहला तल, मित्तल चैम्बर,  
नरीमन प्वाइंट,  
मुम्बई-400021  
टेली:022-2846518/19  
फैक्स:022-2846517  
pdexcil.pdepc@genis.vsnl.net.in  
www.pdexcil.org
25. दि रबड़ बोर्ड  
शास्त्री रोड,  
पोस्ट बॉक्स सं.1122  
कोट्टायम - 686002  
टेली: 0481 571-231  
0481 571-232  
0481 571-235  
0481 571-236  
0481 571-361  
फैक्स: 91-481-571380
26. शैलाक एक्सपोर्ट  
प्रमोशन काउन्सिल  
वाणिज्य भवन,  
इन्टरनेशनल ट्रेड फैसिलीटेशन

- सेन्टर, 1/1 बुड स्ट्रीट दूसरा तल,  
कोलकाता- 700016  
टेली: 91-33-2283-4417, 2283-  
4697/98  
फैक्स: 91-33-2283-4699  
[www.shellacepc.com](http://www.shellacepc.com)
27. दि स्पोर्ट्स गुड्स  
एक्सपोर्ट प्रोमोशन  
काउन्सिल  
द्वितीय तल, 1-ई/6,  
स्वामी राम, तीर्थ नगर,  
(झंडेवाला एक्सटेंशन),  
नई दिल्ली- 110055  
टेली: 011 525 695  
फैक्स: 011-7532147
28. मसाला बोर्ड  
सुगन्ध भवन,  
एन एच बाईपास,  
पी बी नं. 2277  
पालासीवत्तम, पी ओ  
कोचीन- 682025  
टेली: 0484 333610-616  
347965  
फैक्स: 0484-331429  
0484-334429  
ई मेल:1 .spicesboard@vsnl.com  
ई मेल:2. Mail@indianspices.com  
वेबसाईट: [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)
- 10, शक्ति नगर,  
जालन्धर- 144 001  
टेली: 91 181-203734
1. ए-111 डिफेन्स कालोनी,  
नई दिल्ली 110024  
टेली: 011 4611510  
011 4623597  
फैक्स: 011 4621359  
ई मेल:sbrodel@giasd101.vsnl.net.in
2. 195-ए-पार्क स्ट्रीट  
कोलकाता-700017  
टेली:033 2804304  
फैक्स: 033 2479736  
ई मेल:.sbrocal@giasl01.vsnl.net.in
3. यूनिट नं.1 प्लॉट नं. 9 व 10  
बैंकिंग काम्प्लैक्स बिल्डिंग-2  
नजदीक कमोडिटी एक्सचेंज  
सेक्टर-19, ए, वषी,  
मुम्बई-400703  
टेली: 022-7653093  
फैक्स: 022 765116  
ई मेल:rosbbom@bom2.vsnl.net.in
4. 25 पुराना नं.13। पहला तल  
दूसरी, स्ट्रीट ईस्ट अभिरामपूरम,  
मैलापीर  
चेन्नई-600004  
टेली: 044 4991448  
फैक्स: 044 4997474  
ई.मेल: sbrochn@vsnl.com
5. कुरानगनी रोड  
बोडी, नयाकनूर 626513

टेली/फैक्स: 04546 21397  
ई.मेल: sbadbodi@sancharnet.in

6. छटी वाई लेन, राजगढ़ रोड  
गुवाहाटी-781003  
टेली: 0361 542617

7. पी.बी.सं. 85,  
डीजल पावर हाऊस रोड,  
गंगटोक 737101  
टेली: 03592-22904  
फैक्स: 03592-22230  
ई मेल:sbrogtk@dte.vsnl.net.in

8. 14-ए पुराना बसावी नगर  
खरकाना त्रिमुघेरी पी ओ  
सिकन्दराबाद 500015  
टेली: 040 7740436  
फैक्स: 040 7744835  
ई मेल:spicesboard@satyam.net.in

9. 22/1, रेस्ट हाऊस रोड  
बंगलौर 560001  
टेली: 080 532 0354  
फैक्स: 080 532 0354

10. 6, भूतल,  
चिदम्बरम नगर, 5वीं स्ट्रीट,  
तूतीकोरिन- 628008

11. प्लाट नं., 423, शहीद नगर,  
भुवनेश्वर 751007  
टेली: 0674 520567 (पीपी)

12. मार्फत महानिदेशालय हार्दिकल्चर  
का कार्यालय, पो.बा. नं... 030  
आईजोल 796001  
मिजोरम  
टेली: 0389 322809

13. 2, रामवदी सोसाइटी  
निर्णय नगर रोड,  
चैन्डलोडी पी ओ  
अहमदाबाद- 382481  
टेली: 7536684

14. डी/एस, 1115 सेक्टर-डी  
एलडीए कालोनी, कानपुर रोड  
लखनऊ 226012  
टेली: 0522 432009
29. सिंथेटिक एवं रेयॉन वस्त्र  
निर्यात संवर्धन परिषद्  
"रेशम भवन"  
78 वीर नरीमन रोड,  
मुम्बई- 400020  
टेली: 022 2048797  
022 2048690  
022 2824662  
फैक्स: 91-22-2048358  
ई मेल:srtepc-  
mum@400.nicgw.nic.in
- (1) पी एच डी हाऊस, 4 था तल  
फेस-2,  
एशियन खेल गांव के सामने,  
नई दिल्ली- 1100116  
टेली: 011 685 4760  
फैक्स: 91-11-6854049
- (2) खल्लेलिक केन्द्र  
अल्सा माल  
नं. 10, तृतीय तल  
मोन्टीथ रोड  
चेन्नई- 600008  
टेली: 044 8553837/8554236  
फैक्स: 91-44-8553555
- (3) ब्लॉक नं. 3 ई  
रेशम भवन  
लाल दरवाजा  
सूरत 395003  
टेली: 0261 423184  
फैक्स: 91-261-421756
30. टी बोर्ड  
14 बिपलावी त्रिलोक्या  
महाराज सरानी  
ब्रेबोर्न रोड  
कोलकाता-700001  
टेली: 033 25-1411  
फैक्स: 033-2251417
- (1) आजाद भवन तृतीय तल  
4 ई/14 झन्डेवाला एक्टन.  
नई दिल्ली- 110055  
टेली: 011 52-4338
- (2) "रेशम भवन"  
78, वीर नरीमन रोड  
मुम्बई-400020  
टेली: 022 2041699
- (3) सं: 3 ब्लैकर्स रोड  
तृतीय तल  
"विजय कम्प्लैक्स"  
गाउन्ट रोड

चेन्नई-600002

टेली: 044 840640

(4) इन्दिरा गाँधी रोड,

विलिंग्डन आइलैण्ड

कोचीन -682003

केरल

टेली:0484 66-6523/66-6648

(5) "जी.बी.रोड"

पी ओ कुन्जवन

अगरतला-799001

त्रिपुरा

टेलि:0381 22-4182,

(6) "शेलवुड" कुन्नूर

लाइब्रेरी रोड

पोस्ट बाक्स नं.6

कुन्नूर-643101

(7) नीलगिरी

साउथ इन्डिया

टेली:042321638/20316

फैक्स: 0423-22332

(8) क्लब रोड,

पी.ओ सिल्वर-788001

जिला-कछार असम

टेली: 03842 32518

(9) कालेज रोड

कोटयम - 686001

केरल

टेली:048156-7391

फैक्स:0481-567391

(10) "प्रधान भवन"

हकीमपारा, सिलीगुडी,

दार्जिलिंग

टेली:0353420579

फैक्स:0353 -420579

(11) नेहरु पार्क

जोरहाट-785001

असम

टेली: 0376 320501

(12) यू एन बेजबरुआ रोड

सिलपुखुरल,

गुवाहाटी-781003

असम

टेली:(0361)54-7969

036154-2974

फैक्स: 0361-547969

(13) एस ए एस हाऊस द्वितीय तल  
फ्लैट सं.4,6 बी, समूह मार्ग,  
लखनऊ 226001

टेली:0522 224-960

(14) गणेश घाट,

होलिंग नं.-1782

पी.ओ तेजपुर-784001

जिला: सोनितपुर असम

टेली: 03712 20144

(15) मिशन रोड

पालमपुर-176061

काँगड़ा

हिमाचल प्रदेश

टेली:0189430524

फैक्स:01894-30524

(16) जशवाई एफ पटेल बिल्डिंग

तृतीय तल

चोक कटड़ा अहलूवालिया

अमृतसर-143001, पंजाब

टेली: (0183) 551627

(0183) 558515

(0183) 543660

फैक्स: (0183) 228138

31. तम्बाकू बोर्ड

श्री निवास राय थोटा

जी टी रोड

पोस्ट बॉक्स नं. 322

गुन्दूर- 522004

आंध्र प्रदेश,

टेली:230399,

फैक्स:0863 354232

(1) डाईरेक्टरेट ऑफ ऑक्शन्स

1/19, तृतीय क्रॉस

चौथा तल

यूनिटी बिल्डिंग एनेक्सी

सी एस आई कम्पाउण्ड

बंगलौर- 560027

टेलि: (080) 2236599

फैक्स: (080) 2225075

(2) हाऊस नं. 10-4-1/5

चाचा नेहरु पार्क के पीछे,

मासव टैन्क,

हैदराबाद-500028

टेली: (040) 317503

(040) 319989

(3) बी/4/141

सफदरजंग इन्कलेव

नई दिल्ली- 110029

टेली: (011) 610190

32. वूल और वूलन्स निर्यात  
संवर्धन परिषद्
- 906, नई दिल्ली हाऊस,  
27 बाराखम्बा रोड  
नई दिल्ली- 110001  
टेली: 011 3315512  
फैक्स: 01123315205
- (1) चर्च गेट चैम्बर्स  
5 न्यू मेरीन लाइन्स  
7वां फ्लोर, मुम्बई-400020  
टेली: 022 2624680  
फैक्स: 022 2624651  
(2) 704/3 (गुरुदेव नगर)  
पाखोवाल रोड  
लुधियाना 141001  
टेली: 0161-35842  
फैक्स: 0161-405169  
(3) म्युनिसीपल कामर्शियल कम्प्लेक्स  
भारेथियर मेमोरियल बिल्डिंग  
हाल नं. 2, प्रथम तल  
अवेनेन्सी रोड  
तिरुपुर- 641602  
टेली: 0421-700316
33. वूल इंटरट्रीज निर्यात  
संवर्धन संगठन
- चर्चगेट चैम्बर्स, 7वां फ्लोर,  
5 न्यू मेरीन लाइन्स,  
मुम्बई-400020  
टेली: 022-22624372  
फैक्स: 022-22624675  
ई मेल: iwmf@bom3.vsnl.net.in

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th January, 2005

No. 49/2004—2009

F. No. 01/94/180/0009/AM 05/PC-IV. -In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment(s) in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

- The 1<sup>st</sup> Para of 3.12 is amended to read as under:-  
An exporter desiring to obtain a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) shall declare his main line of business in the application, which shall be made to the Export Promotion Council (EPC) relating to that line of business. However, a status holder has the option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).
- The existing Appendix-27 shall be substituted by the revised Appendix-27 as given in Annexure-I to this Public Notice.
- After the existing entry at Sl.No.37 in Appendix 35A following new entries are added:  
38. All DGFT offices as per their territorial jurisdiction as given in Appendix-24 of Handbook of Procedures Vol.I.

### 39. All Regional Offices of Export Promotion Councils as indicated in this Appendix

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

#### **ANNEXURE-I**

#### **APPENDIX - 27**

#### **LIST OF EXPORT PROMOTION COUNCILS/COMMODITY BOARDS**

S.No.	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)		
1.	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	3 Siri Institutional Area August Kranti Marg, New Delhi 110 016 Tel: (011) 651 3204 (011) 651 4572 (011) 653 4186 Fax: (011) 653 4870	1) 12th Floor, Unit No. 1 MVRDC, Cuffe Parade World Trade Centre Mumbai 400 005 Tel: (022) 218 3106 (022) 218 9060 Fax: (022) 218 9681	2) 12/1/1 Palace Cross Road Bangalore 560 020 Tel: (080) 334 3425 Fax: (080) 336 4560
		3) Mayukh Bhawan, Bidhan Nagar Kolkata 700 091 Tel: (033) 374 244	
2.	<b>Apparel Export Promotion Council</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	15 NBCC Tower Bhikaji Cama Place New Delhi 110 066  Tel: (011) 618 3351 (011) 616 9394 (011) 616 9356 (011) 616 9357 Fax: (011) 618 8584	1) 4th Floor Sahyog Building 58 Nehru Place New Delhi 110019 Tel: (011) 641 6709 (011) 647 2533 Fax: (011) 648 7517	2) 48 Community Centre Naraina Indl. Area Phase I, New Delhi -110028 Tel: (011) 579 0185 (011) 579 0187 (011) 579 8326 (011) 579 5309 Fax: (011) 579 0701 (011) 579 5309
		3) 6 Community Centre Zamrudpur, New Delhi 110 048 Tel: (011) 646 0491 (011) 646 0492 (011) 621 8387 (011) 621 6963 Fax: 011-648 0489	4) CFO 3&4 Tonk Road, Nehru Place, Jaipur 302 015 Rajasthan Tele: 518275 518276 Fax: 518654
		5) G 138 Shastri Nagar Jodhpur 342 003 Tel: 0291 376 52 Fax: 0291-376 52 0291-238015	6) Flat No. 112, Ground Floor Pratap Colony; Model Gram Ludhiana(Punjab) Tel: 0161 402 697 0161 207234 Fax: 0161-402697
		7) 12th Floor, Bajaj Bhavan Nariman Point Mumbai 400 021 Tel: (022) 284 5479 (022) 204 5924 (022) 204 0174 (022) 285 3420 (022) 285 3419 Fax: (022) 204 3178	8) Room No. 73-76, Cargo Complex Building (ground floor) Sahar Village Ville-Parle (East), Mumbai 400 099 Tel: (022) 832 1327 Fax: (022) 821 3411

		9) Karumuthu Centre 111rd Floor, 498 Anna Salai Chennai 600 035 Tel: (044) 434 3588 (044) 4346848 Fax (044) 4346416	10) No.1, 3rd street, Indira Nagar, Off Avinashi Road Tirupur 641 603 Tamil Nadu Tel:(0421) 743 049 (0421) 748 763 (0421) 749 631 Fax:(0421) 749 630
		11) 1st Floor, 5-10-19, Ritz Hotel Road, Saifabad, (Near Haga Bhawan/ Police control Room) Hyderabad Tele: 210372 Fax : 210378	12) 42/1924, Vivait Building, K.K dmanabhan Road, Kochi - 682 018 Tele: (0484) 391 710 Fax: (0484) 392 907
		13) 2/2-B HO CHI MINH Sarani, Kolkata 700 071 Tel:(033) 242 3911 Fax:(033) 242 2766	
3.	Basic Chemicals, Pharmaceuticals & Cosmetics Export Promotion Council		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	Jhansi Castle, 4th Floor 7 Cooperage Road Mumbai 400 039  Tel: (022) 202 1288 (022) 202 1330, (022) 282 5861, Fax: (022) 202 6684	1) Kankara Estate 9th Floor 6 Little Russell St. Kolkata 700 071 Tel: (033) 247 5562	2) No. 23/1 & 2 5th Main Road, 3rd Cross, Gandhinagar Bangalore 560 009 Tel: No. (080) 226 9037 (080) 226 0446
4.	The Cashew Export Promotion Council of India		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	P B. No.1709 Chittoor Road Ernakulam South Cochin 682 016 Tel: (0484) 361 459 (0484) 369 080 (0484) 353 357 Fax: (0484) 370 973		
5.	Carpet Export Promotion Council		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	110-A/1 Krishna Nagar (Gali No. 5) Safdarjung Enclave New Delhi 110 029 Tel: (011) 6102742 (011) 6101024 Fax: 91 11 616 5299	1st Floor, Kaleen Bhawan, Maryadpatti Bhadoli 221 401 (U.P.) Tel: 05414 259 75	
6.	CAPEXIL		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	

	<b>"World Trade Centre"</b> 2 <sup>nd</sup> floor, 14/1-B, Ezra Street Kolkata 700 001  Tel: (022) 22215652 (022) 22357079,22358217/19 (022) 22342416/65  Fax: 91-33-22215657  Email: <a href="http://www.capexil.com">www.capexil.com</a> and <a href="http://www.capexiltrade.com">www.capexiltrade.com</a>		<b>1) Western Region</b>  Commerce Centre, Block No.D.17, Tardeo Road, Mumbai 400 034 Tel: (022) 494 3410 (022) 496 0084 Fax: 91-22-493 7665	<b>2) Southern Region</b>  "Rasheed Mansion" 408 Anna Salai, Chennai 600 006  Tel: (044) 8292310 (044) 8294713 Fax: 91-44-8295386
			<b>3) Northern Region</b>  "Vandana Building, 4C 4 <sup>th</sup> floor, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 Tel: (011) 335 6703 (011) 3711479 (011) 3752282 Fax: 91-11-3314486 E.Mail: <a href="mailto:capexiln@bol.net.in">capexiln@bol.net.in</a>	<b>4) Eastern Region</b>  "Tobacco House" 1 & 2 Old Court House Corner, Kolkata 700 001 Tel: (033) 220 7620 Fax: 91-33 220 6945
<b>7.</b>	<b>Coffee Board</b>			
	<b>Registered Office</b>		<b>Regional Office</b>	
	1, Dr. Ambedkar Veedhi Bangalore 560 001 Fax: 080 226 5557			
<b>8.</b>	<b>Coir Board</b>			
	<b>Registered Office</b>		<b>Regional Office</b>	
	Coir House M.G.Road, Ernakulam South Kochi 682016 Tel: (0484) 351 788 (0484) 351 807 (0484) 351 954 (0484) 354 397 Fax: 0484 370 034		8 Annexe Building Cunningham Road Bangalore 560 052 Tel: (080) 268 538	
<b>9.</b>	<b>The Cotton Textiles Export Promotion Council</b>			
	<b>Registered Office</b>		<b>Regional Office</b>	
	Engineering Centre 5 <sup>th</sup> Floor, 9, Mathew Road, Mumbai- 400 004  Tel: (022) 363 2910-13 Fax: 22 3632914		1) Cecil Court 26 Mahakavi Bhushan Marg(Near Regal Cinema) Mumbai 400 039 Tel: (022) 202 1477 (022) 202 1522,(022) 202 7221 Fax:(022) 202 2510	2) No.F, II Floor 'Mount Chambers' 758 Mount Road Madras 600 002 Tel: 044 852 5486 Fax: (044) 852 1205
			3) 101, Ashoka Estate 24 Barakhamba Road New Delhi 110 001 Tel: 011-331 6168 Fax: 011 371 9104	4) Jaldarshan Housing Society Opp. Natraj Cinema Ashram Road Ahmedabad 380 009 Tel: 079 409 323

		5) 14/1B Ezra Estate World Trade Centre Kolkata 700 001 Tel: 033 254 541	6) 'Jayanthi', 1 <sup>st</sup> Floor 48-A S.S Moorthy Street Tuticorin 628002 (T.N.) Tel: 245 87
		7) Export Documentation Centre Building Wellington Island Cochin North End 682 003 Tel: (0484) 666 521	8) 2 <sup>nd</sup> Floor, 593 Cross Cut Road, Gandhipuram Coimbatore 641012 Tel: 235 587
		9) Air Cargo Complex Sanganer Airport Jaipur 302 011 Tel: 0141 550 020	10) 10/293 Bungalow Road Congress Bhavan Ichalkaranji 416 115 Dist. Kolhapur Tel: 22193
		11) 'Mayur Complex' 20 Palaniappa Street Erode 638 009 Tel: C/o 77 901	12) Air Cargo Complex International Airport Authority of India Near Mumbai Airport Sahar Village Mumbai 400 057 Tel: (022) 832 4094
10.	<b>Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC)</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	PHD House, 3 <sup>rd</sup> Floor Ramakrishna Dalmia Wing Opp. Asiad Village New Delhi 110016 Tel: (011) 696 5103 (011) 696 4463 Fax: (011) 651 0632 (011) 685 3412 Email: esc@qiasd101.vsnl.net.in		
11.	<b>Engineering Export Promotion Council</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	World Trade Centre 1 <sup>st</sup> Floor 14/1B Ezra Street Kolkata 700 001 Tel: (033) 250 514 (033) 254 631 Fax: 0091 033 254659	1) Centre 1, 12 <sup>th</sup> Floor World Trade Centre Cuffe Parade Mumbai 400 005 Tel: (022) 218 6655 (022) 218 6656 (022) 218 6660 Fax: 0091-22-218 0119	2) Surya Kiran (4 <sup>th</sup> Floor) 19 Kasturba Gandhi Marg New Delhi 110 001 Tel: (011) 331 4171 (011) 331 4174 Fax: 0091 11 331 7795
		3) Maalavika Centre 3 <sup>rd</sup> Floor, 144/145 Kodambakkam High Road Madras 600 034 Tel: (044) 827 7501 (044) 827 6007 (044) 826 4972 Fax: 0091 44 827 0491	
12.	<b>Export Promotion Council for Export Oriented Units and SEZ Units</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	705, Bhikaji Cama Bhawan,		

	Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110 066 Tel: 011-26165508/7042/6185 Fax: 011 – 26165538 Email: <a href="mailto:epces@vsnl.com">epces@vsnl.com</a>	
<b>13.</b>	<b>Federation of Indian Export Organisations (FIEO)</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	PHD House, 3 <sup>rd</sup> Floor, Opp. Asian Games Village New Delhi 110 016 Tel: (011) 685 1310 (011) 685 1312 (011) 685 1314 (011) 685 1315 Fax: 91 11 686 3087 696 7859 E-Mail : <a href="mailto:fiodel@fiodel.cmc.net.in">fiodel@fiodel.cmc.net.in</a> <a href="mailto:fiel@fiel01.vsnl.net.in">fiel@fiel01.vsnl.net.in</a>	1) World Trade Centre No.1, 11 <sup>th</sup> Floor, Cuffe Parade Mumbai 400 005 Tel: (022) 218 5093 (022) 218 3354 Fax: 91 22 218 3875 E-Mail : <a href="mailto:fiowr@fiasbm01.vsnl.net.in">fiowr@fiasbm01.vsnl.net.in</a> 2) Spencer Plaza Unit No. 706, 7 <sup>th</sup> Floor 769 Anna Salai Chennai 600 002 Tel: (044) 852 2427 (044) 852 1861 Fax: 91 44 852 4767 E-Mail : <a href="mailto:fiocr@fiasmd01.vsnl.net.in">fiocr@fiasmd01.vsnl.net.in</a> 3) Express Tower, 6 <sup>th</sup> Floor 42A Shakespeare Sarani (Junction of Rawdon St. and Shakespeare Sarani) Kolkata 700 071 Tel: (033) 2406 398, (033) 2405 076 Fax: 91 033 247 0364 E-Mail : <a href="mailto:fiocr@gems.vsnl.net.in">fiocr@gems.vsnl.net.in</a>
<b>14.</b>	<b>The Gem &amp; Jewellery Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	Diamond Plaza 5th floor 391-A Dr. D.B. Marg Mumbai 400 004  Tel: (022) 385 6916 (022) 382 1806 (022) 382 1801 Fax: (022) 386 8752 E-mail: <a href="mailto:giepc@vsnl.com">giepc@vsnl.com</a>	1) F-3 Jhandelwala Flatted Factories Complex Rani Jhansi Road New Delhi 110 055 Tel: (011) 351 5395 (011) 361 4197 Fax: (011) 3675274 2) Rajasthan Chamber Bhavan, M.I. Road, Jaipur -302 003 Tel: 0141 565 731 0141 568 029 Fax: 0141 567921 E-Mail: <a href="mailto:giepcjp@jp1.DOT.net.in">giepcjp@jp1.DOT.net.in</a> 3) 626-628, Belgium Towers 6th Floor, Ring Road, Surat 395 001 Tel: 0261 435 008 4) Ankur plaza, 3rd floor, 52, G.N.Chetty Road, T. Nagar Chennai 600017 Tel: 044-8276188 044-8226686 e-mail: <a href="mailto:giepcsr@vsnl.com">giepcsr@vsnl.com</a> 5) International Trade Facilitation Centre (Baniya Bhavan) 6TH Floor, Left Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata-700 016 Tel.: 033- 22823630 Fax : 91-33-22823629 E-mail : <a href="mailto:giepcer@vsnl.com">giepcer@vsnl.com</a>
<b>15.</b>	<b>Export Promotion Council for Handicrafts</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	Plot No.1, Pocket 6 and 7 Sector-C, LSC, Vasant Kunj,	

	Delhi 110 070 Tel: (011) 613 5256-58 Fax: 91-11-613 5518-19 E-Mail: <a href="mailto:epch@vsnl.com">epch@vsnl.com</a>	
<b>16.</b>	<b>The Handloom Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	34 Cathedral Garden Road, Nungambakkam Chennai 600 034 Tel: (044) 827 8879 (044) 827 6043 Fax: 0091 (044) 827 1761 E-mail: <a href="mailto:hepccatp@vsnl.com">hepccatp@vsnl.com</a>	1) 1004, 10th floor, Padma Tower-1 5, Rajendra Place, New Delhi-110008 Tel: (011) 5826965 Fax: (011) 5826966 E-mail: <a href="mailto:hepcrond@vsnl.com">hepcrond@vsnl.com</a> 2) 15-A, Mama Paramananda Marg Opera House Mumbai- 400004 Telefax: 91-22-3672921 E-mail: <a href="mailto:hepcromu@mantraonline.com">hepcromu@mantraonline.com</a>
<b>17.</b>	<b>The Indian Silk Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	62 Mittal Chambers 6 <sup>th</sup> Floor Nariman Point Mumbai 400 021 Tel: (022) 202 7662 (022) 202 5866 Fax: (022) 287 4606 Email: <a href="mailto:isecc@bom2.isnl.net.in">isecc@bom2.isnl.net.in</a>	16 National Park Lajpat Nagar IV New Delhi 110 024 Tel: (011) 621 6272 Fax: (011) 643 0685
<b>18.</b>	<b>Jute Manufacturers Development Council.</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	3A, Park Plaza, 71 Park Street, Kolkata-700016 Phone: 2172107, 2172540, 2263438 Fax: 2172456 E-Mail: <a href="mailto:jmdc@giasci01.vsnl.net.in">jmdc@giasci01.vsnl.net.in</a>	
<b>19.</b>	<b>Council for Leather Exports</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	"Leather Centre" 53, Raja Muthiah Road Chennai 600 003 Tel: (044) 589 098 (044) 582 041 (044) 580 834 Fax: (044) 588 713 (044) 587 083 E-mail: <a href="mailto:Cle@giasmd01.vsnl.net.in">Cle@giasmd01.vsnl.net.in</a>	1) 15/238 Civil Lines P.O. Box No.198 Kanpur 208 001 Tel: (0512) 311 247 (0512) 318 053 Fax: (0512) 311 247 2) 11/4 World Trade Centre-I, Cuffe Parade Mumbai-400 005 Tel: (022) 218 4060 Fax: (022) 215 1207 3) Flat No. 6G & 6H, "Gopala Towers" Rajendra Place New Delhi 110 008 Tel: (011) 571 8516 (011) 571 1437 Fax: (011) 575 2760 4) "Moti Jug House" Ground Floor, 1, Auckland Place Kolkata 700 017 Tel: (033) 240 7270 Fax: (033) 247 4543 5) Agra Extension Centre Block No 26/2/4 Shop No 112, Sanjay Place Agra 282 002 Tel. 352 619
<b>20.</b>	<b>The Marine Products Export Development Authority</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>

	<p>P.B. No.1663 MPEDA House Panampilly Avenue Kochi 682 036 Tel: (0484) 311 979 (0484) 311 901 Fax:0091 0484 313 361</p>	<p>1) 6th Floor, Regent Chambers Jamania Bajaj Marg Nariman Point Mumbai 400 021 Tel: (022) 283 1399 (022) 283 4354 Fax: 022 283 4354</p>	<p>2) 4-B Maruti Building 12 Loudoun Street Kolkata 700017 Tel:(033)247 5908 (033)247 1181</p>
		<p>3) Thoufeeq Complex Ravipuram, M.G. Road, Cochin 682 016 Tel:(0484)350 518 (0484)350 562</p>	<p>4) No.10, Sambantham St. G. N. Chetty Road T. Nagar Chennai 600 017 Tel: 044 827 7350 (044) 827 7490 Fax: 04482 774 90</p>
		<p>5) Sukhshanti Bldg 1st Floor Bhidiya, Veraval-362269 Gujarat Tel: 02876 214 29 Fax: 02876 214 29</p>	<p>6) Door No. 13-1-15 Ward No.13, 1st Floor Kelle Court Panje Mangesh Rao Road Hampankutta Mangalore 575 001 Tel: 0824 440 360 Fax: 0824 440 360</p>
		<p>7) Mira Flores, 1st Floor Near Gomantak Press St. Inez, Panaji 403 001 Goa Tel:(0832)224 283 Fax:(0832)224 283</p>	<p>8) Srihari,Parameswara Nagar Quilon 691 001 Tel:(0474)73741 Fax:(0474)73741</p>
		<p>9) 487-9 Rama Talkies Road 1st Floor, Srinagar Visakhapatnam 530 016 Fax: 0891 552 077</p>	<p>10) Thiruvurul, 24,Chidambaram -Nagar, 2nd Street, Tuticorin 628 008 Tel:(0466) 22602 Fax:(0466) 22602</p>
		<p>11) (Paradeep) Plot No.695/696 G Block, BJB Nagar Bhubaneswar 751 014 Tel:(0674)430 724</p>	<p>12) Trade Promotion Office 101 Nirmal Tower Barakhamba Road New Delhi 110 001 Tel:(11)3719126 Fax:(11)3310582</p>
21.	<b>Project Exports Promotion Council Of India</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	<p>H-118, Himalaya House, (11th Floor), 23,Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001</p> <p>E-Mail : info@projectexports.com Website : - http://www.projectexports.com</p>		
22.	<b>Plastic Export Promotion Council</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	Crystal tower, Crystal	306, Dohil chambers, 3rd floor.	

	Cooperative Housing Society Limited, Gundwali Road No. 3, Off M. V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400 005 Tel: 022-26833951/52 Fax: 022-26833953 E-mail: <a href="mailto:plexconclit@vsnl.com">plexconclit@vsnl.com</a>	46, Nehru Place, New Delhi - 19 Tel: 26445610 Fax: 26236070
<b>23.</b>	<b>Pharmaceutical Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	C-25, Industrial Estate, Sanatnagar, Hyderabad 500018 Tel: 040-23703910/ 06718 Fax: 040-23704804	Poonam Chambers, A Wing, Dr A.B Road, Worli, Mumbai 400 018 Tel: 022-24974308/ 44624; Fax: 022-24950723
<b>24.</b>	<b>The Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL)</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	16, 1 <sup>st</sup> Floor Mittal Chamber Nariman Point Mumbai 400 021, Tel: 022- 2846518/19 Fax: 022- 2846517 <a href="mailto:pdexcil.pdepc@gems.vsnl.net.in">pdexcil.pdepc@gems.vsnl.net.in</a> <a href="http://www.pdexcil.org">www.pdexcil.org</a>	
<b>25.</b>	<b>The Rubber Board</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	Shastri Road, P.B.No.1122 Kottayam 686 002 Tel: (0481) 571-231 (0481) 571-232 (0481) 571-235 (0481) 571-236 (0481) 571-361 Fax: 91-481-571380	
<b>26.</b>	<b>Shellac Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	Vaniya Bhavan, International trade Facilitation Centre, 1/1, Wood Street, 2 <sup>nd</sup> Floor, Kolkata- 700 016  Tel: 91-33-2283-4417, 2283-4697/98 Fax: 91-33-2283-4699 <a href="http://www.shellacepc.com">www.shellacepc.com</a>	
<b>27.</b>	<b>The Sports Goods Export Promotion Council</b>	
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>
	11 <sup>th</sup> Floor, 1-E/6, Swami Ram, Tirath Nagar, (Jhandewalan Extn), New Delhi 110 055 Tel: (011) 525 695 Fax: 011-7532147	10, Shakti Nagar, Jalandhar- 144 001 Tel: (91) 181-203734

28.	<b>Spices Board</b>	<b>Regional Office</b>
	<b>Registered Office</b>	
	<p>Sugandha Bhavan N.H. By-pass P.B. no. 2277 Palarivattom P.O. Cochin-682 025,</p> <p>Phone: 0484-333610-616, 347965 Fax: 0484-331429, 334429 E.mail: 1. <a href="mailto:Spicesboard@vsnl.com">Spicesboard@vsnl.com</a> E.mail: 2. <a href="mailto:Mail@indianspices.com">Mail@indianspices.com</a> Website: <a href="http://www.indianspices.com">www.indianspices.com</a></p>	<p>1) A 111 Defence Colony New Delhi – 110 024 Phone: 011 4611510, 4623597 Fax : 011 – 4621359 Email : <a href="mailto:sbrodel@qiasd01.vsnl.net.in">sbrodel@qiasd01.vsnl.net.in</a></p> <p>2) 195 – A – Park Street Calcutta – 700 017 Phone: 033 – 2804304 Fax : 033 – 2479736 Email: <a href="mailto:sbrocal@qiasl01.vsnl.net.in">sbrocal@qiasl01.vsnl.net.in</a></p> <p>3) Unit No. 1, Plot No. 9 &amp; 10 Banking Complex Bldg. – II Near Commodity Exchange Sector – 19 – A, Vashi, Mumbai – 400 703 Phone: 022 – 7653093 Fax : 022 – 765116 Email : <a href="mailto:rosbbom@bom2.vsnl.net.in">rosbbom@bom2.vsnl.net.in</a></p> <p>4) 25(old No.13), First Floor Second Street, East Abhiramapuram, Mylapore, Chennai – 600 004 Phone: 044 – 4991448 Fax : 044 – 4997474 Email : <a href="mailto:sbrochn@vsnl.com">sbrochn@vsnl.com</a></p> <p>5) Kurangani Road Bodinayakanur – 626 513 Phone/Fax : 04546 – 21397 Email: <a href="mailto:sbadbodi@sancharnet.in">sbadbodi@sancharnet.in</a></p> <p>6) 6<sup>th</sup> Bye Lane, Rajgarh Road Guwahati – 781 003 Phone : 0361 542617</p> <p>7) P.B.No.85, Diesel Power House Road, Gangtok – 737 101 Phone. 03592 – 22904 Fax : 03592 – 22230 Email : <a href="mailto:sbrogtk@dte.vsnl.net.in">sbrogtk@dte.vsnl.net.in</a></p> <p>8) 14-A-Old Vasavi Nagar Kharkana, Trimulgherry P.O Secunderabad – 500 015 Phone: 040-7740436 Fax: 040 7744835 Email: <a href="mailto:spicesboard@satyam.net.in">spicesboard@satyam.net.in</a></p> <p>9) 22/1, Rest House Road Bangalore – 560 001 Phone: 080-532 0354 Fax: 080-5320354</p> <p>10) 6, Ground Floor Chidambaram Nagar 5<sup>th</sup> Street, Tuticorin 628 008</p> <p>11) Plot No.423, Sahid Nagar Bhubaneswar – 751 007 Phone. 0674-520567 (PP)</p> <p>12) C/o Office of the Directorate of Horticulture, PBNo.030 Aizwal – 796 001, Mizoram. Phone: 0389-322809</p> <p>13) 2, Ramvadi Society Nirnay Nagar Road Chandlodi P.O. Ahmedabad – 382 481 Phone: 7536684</p> <p>14) D/S, 1115 Sector-D LDA Colony, Kanpur Road Lucknow – 226 012 Phone: 0522-432009</p>
29.	<b>The Synthetic &amp; Rayon Textiles Export Promotion Council</b>	<b>Regional Office</b>
	<b>Registered Office</b>	

	<b>'Resham Bhavan'</b> 78 Veer Nariman Rd. Mumbai 400 020 Tel: (022) 2048797 (022) 2048690 (022) 2824662 Fax: 91-22-2048358 E Mail: <a href="mailto:SRTEPC-MUM@400.nicgw.nic.in">SRTEPC-MUM@400.nicgw.nic.in</a>	1) PHD House 4th Floor Phase II Opp. Asian Games Village New Delhi 110 016 Tel: 011 685 4760 Fax: 91-11-6854049	2) Khallielic Centre (Alsa Mall) No. 10, 3rd Floor Montieth Road Chennai-600 008 Tel: 044 8553837/8554236 Fax: 91-44-8553555
		3) Block No. 3E Resham Bhavan Lal Darwaja Surat 395 003 Tel: 0261 423184 Fax: 91-261-421756	
<b>30.</b>	<b>Tea Board</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	14 Biplabi Tralokya Maharaj Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001 Tel: (033) 25-1411 Fax: 033-2251417	1) Azad Bhawan (3 <sup>rd</sup> Floor) 4E/14, Jhandewalan Extn. New Delhi - 110055 Tel: 011- 52-4338	2) "Resham Bhawan" 78, Veer Nariman Road Mumbai - 400020 Tel: 022- 2041699
		3) No. 3 Blacker's Road (3 <sup>rd</sup> Floor) "Vijaya Complex" (Mount Road) Chennai - 600002 Tel: 044-840640	4) Indira Gandhi Road, Willingdon Island Cochin-682003 KERALA Tel: 0484- 66-6523/66-6648
		5) "G.B. Road," P.O. Kunjaban Agartala-799001 Tripura Tel: 0381-22-4182.	6) "SHELWOOD" Coonoor Library Rd. Post Box No. 6. Coonoor-643101.
		7) Nilgiris, South India Tel: 0423-21338/20316 Fax: 0423-22332	8) Club Road, P. O. Silchar-786001 Dist. Cachar (Assam) Tel: 03842-32518
		9) College Road Kottayam-686001 Kerala Tel: 0481-56-7391 Fax 0481-567391	10) "Pradhan Bhawan" Hakimpara, Siliguri, Darjeeling Tel: 0353-420579 Fax : 0353 -420579
		11) Nehru Park Jorhat-785001, Assam Tel: 0376-320501	12) U.N. Bezbarua Road Silpukhuri, Guwahati-781003 Assam Tel: 0361-54-7969 (0361)54-2974 Fax: 0361-547969
		13) S.A.S. House (2 <sup>nd</sup> Floor, Flat No. 4, 6B, Sapru Marg, Lucknow 226001 Tel: 0522-224-960	14) Ganesh Ghat, Holding No. 1782 P.O. Tezpur-784001 Dist. Sonitpur (Assam) Tel: 03712-20144

		15) Mission Road Palampur-176061, Kangra Himachal Pradesh Tel: 01894-30524 Fax: 01894-30524	16) Jashbhai F Patel Building (3 <sup>rd</sup> Floor) Chock Katra Ahuwalla Amritsar-143001, Punjab. Tel: (0183)551627 (0183)558515 (0183)543660 Fax: (0183)228138
<b>31.</b>	<b>Tobacco Board</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	Srinivasa Rao Thota G.T. Road P.B. No. 322 Guntur 522 004 Andhra Pradesh.  Tel: 230399, Fax: 0863 354232	1) Directorate of Auctions 1/19, IIIrd Cross 4th Floor Unity Building Annexe C.S.I Compound Bangalore 560 027 Tel: (080) 2236599 Fax: 080 2225075	2) H.No.10-4-1/5 Behind Chacha Nehru Park, Masav Tank, Hyderabad 500 028 Tel: (040)317503 (040)319989
		3) B/4/141 Safdarjung Enclave New Delhi 110 029 Tel: (011) 610190	
<b>32.</b>	<b>Wool &amp; Woollen Export Promotion Council</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	906, New Delhi House, 27 Barakhamba Road New Delhi 110 001 Tel: (011) 2331 5512 Tele. Fax: (011) 23315205	1) Churchgate Chambers 7 <sup>th</sup> floor, 5 New Marine Lines, Mumbai 400 020 Tel: (022) 2624680 Fax: 022 2624651	2) 704/3, (Gurdev Nagar) Pakhawal Road Ludhiana 141001 Tel: 0161-35842 Fax: 0161-405169
		3) Municipal Commercial Complex (Bharathiar Memorial Building) Hall No.2, 1 <sup>st</sup> Floor Avananshi Road Tirupur 641 602 Tel. 0421-700316	
<b>33.</b>	<b>Wool Industry Export Promotion Organisation (WOOLTEXPRO)</b>		
	<b>Registered Office</b>	<b>Regional Office</b>	
	Churchgate Chambers, 7th Floor, 5 New Marine Lines, Mumbai - 400 020 Tel: 022-22624372 Fax: 022-22624675 E-mail: iwmf@bom3.vsnl.net.in		